



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

# बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र 1937 (श०)

(सं० पटना 403) पटना, शुक्रवार, 27 मार्च 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएँ  
26 मार्च 2015

एस०ओ० 33, दिनांक 27 मार्च 2015—केन्द्रीय बिक्री-कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9 के उप-नियम (9) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निबंधित व्यवसायी को निर्गत घोषणा प्रपत्र 'सी' को अवैध घोषित करते हुए रद्द किया जाता है एवं सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है—  
**'घोषणा प्रपत्र का विवरण'**

1.	सर्वश्री रोहित पोल इन्डस्ट्रीज, वैट टिन संख्या—10244133044	प्रपत्र 'सी' क्रमांक—GOB/C-741207 (मात्र एक पन्ना)
2.	प्रपत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी, सासाराम अंचल, सासाराम।
3.	प्रपत्र रद्द करने का कारण	घोषणा प्रपत्रों का खो जाना।
4.	प्रपत्र रद्द करने का उद्देश्य	दुरुपयोग की रोकथाम।
5.	प्रपत्र के अमान्य होने की तिथि	वाणिज्य-कर कार्यालय द्वारा निर्गमन की तिथि से।

(सं०सं० बिक्री-कर/रद्द-13/2014-1359)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

26 मार्च 2015

एस०ओ० 34, एस०ओ० 33, दिनांक 27 मार्च 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं० बिक्री-कर/रद्द-13/2014-1360)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

*The 26th March 2015*

S.O. 33, dated the 27th March 2015—In exercise of the powers conferred by the sub-rule (9) of Rule 9 of the Central Sales Tax (Bihar) Rules, 1957, the declaration forms “C” issued to the following registered dealer are being cancelled and declared invalid and hereby published for general information –

**Particulars of the Declaration Forms**

1.	M/s Rohit Pole Industries, VAT TIN No-10244133044	Sl. No of Form ‘C’ - GOB/C-741207 (Only one Form)
2.	Designation of the officer who issued the form	Deputy Commissioner of Commercial Taxes, Sasaram Circle, Sasaram.
3.	Reason for cancellation of form	Due to Loss of Form.
4.	Purpose for cancellation of form	Prevention of misuse.
5.	Date from which declared invalid	From the date of issue by the Commercial Taxes office.

(F.No.-Bikari-kar/Radd-01/2015-**1359**)

By order of the Governor of Bihar,

RAVI MITAL,

*Commissioner-cum-Principal Secretary,*

*Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 403-571+20-३०८०८०१

Website: <http://egazette.bih.nic.in>